



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 9—मार्च 15, 2008, शनिवार/फाल्गुन 19—फाल्गुन 25, 1929
No. 5] NEW DELHI, MARCH 9—MARCH 15, 2008, SATURDAY/PHALGUNA 19—PHALGUNA 25, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेना चिकित्सा कोर्पस सिविलियन (समूह 'ग' पैरा चिकित्सा) लेखाकार चलचित्र प्रचालक श्रेणी-I, रेडियो मैकेनिक, घड़ीसाज और विद्युत वायरमैन भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना चिकित्सा कोर्पस सिविलियन (समूह 'ग' लेखाकार चलचित्र प्रचालक श्रेणी) रेडियो मैकेनिक, घड़ीसाज और विद्युत वायरमैन (संशोधन) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना चिकित्सा कोर्पस सिविलियन (समूह 'ग' लेखाकार चलचित्र प्रचालक श्रेणी) रेडियो मैकेनिक, घड़ीसाज और विद्युत वायरमैन भर्ती नियम, 2006 में पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जा सकेंगे, अर्थात् :-

का.नि.आ. 44 "राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेना चिकित्सा कोर्पस सिविलियन (समूह 'ग' पैरा चिकित्सा) भर्ती नियम, 1983 को जहाँ तक उनका संबंध लेखाकार चलचित्र प्रचालक श्रेणी-I, रेडियो मैकेनिक, घड़ीसाज और विद्युत वायरमैन से है, उन बातों के सिवाय,

अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसा अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है सेना चिकित्सा कोर्पस में कतिपय समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं," अर्थात् :-

3. अधिसूचना का.नि.आ. 44 के अन्त में आने वाला पाद टिप्पण हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. बी/72117/आर आर/डीजीएमएस-3
(बी)/130/आर आर/08/डी(नियुक्ति)]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th February, 2008

S. R. O. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Army Medical Corps Civilian (Group 'C' Para-Medical) posts of Accountant, Cinema Operator Gde-I, Radio-Mechanic, Watch Repairer and Electrical Wireman Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Army Medical Corps Civilian (Group 'C' Accountant, Cinema Operator Gde-I, Radio-Mechanic, Watch Repairer and Electrical Wireman) (Amendment) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Army Medical Corps (Civilian Group 'C' Accountant, Cinema Operator Gde-I, Radio-Mechanic, Watch Repairer and Electrical Wireman) Recruitment Rules, 2006, for Para 1 the following may be substituted namely :—

S.R.O. 44. "In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Army Medical Corps Civilian (Group 'C' Para-Medical) Recruitment Rules, 1983 in so far as they relate to post of Accountant, Cinema Operator Gde-I, Radio-Mechanic, Watch Repairer and Electrical Wireman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Army Medical Corps", namely :—

3. The foot note appearing at the end of Notification S.R.O. 44 shall stand deleted.

[F. No. B/72117/RR/DGMS-3(B)/130/RR/08/D(Apptts)]

C.J. JOSE, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के अधीन सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, समूह "ख" पद (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, समूह "ख" पद (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) भर्ती संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, समूह "ख" पद (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में स्तंभ 11 के स्तंभ शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता"

[सं. 11353/आर आर/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/137/आर आर/डी(नियुक्ति)/08]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में का.नि.आ. सं 86 तारीख 14 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 28th February, 2008

S. R. O. 27.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Armed Forces Medical Stores Depot Group 'B' Post (Senior Stores Superintendent) Recruitment Rules, 2005 under the Directorate General Armed Forces Medical Services Ministry of Defence, namely :—

1. (1) These rules may be called the Armed Forces Medical Stores Depot Group 'B' Post (Senior Stores Superintendent) Recruitment Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Armed Forces Medical Stores Depot Group 'B' Post (Senior Stores Superintendent) Recruitment Rules, 2005 for the column heading of column 11, the following column heading shall be substituted namely :—

"Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method."

[F. No. 11353/RR/DGAFMS/DG-2B/137/RR/D(Apptts)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4 vide number S.R.O. 86, dated the 14th July, 2005.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज्येष्ठ अधीक्षक, स्वास्थ्य अधीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक के सेना चिकित्सा कोर सिविलियन (समूह 'ग' पैरा मेडिकल) पर भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ज्येष्ठ अधीक्षक, स्वास्थ्य अधीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक के सेना चिकित्सा कोर सिविलियन (समूह 'ग' पैरा मेडिकल) पद संशोधन भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ज्येष्ठ स्वास्थ्य अधीक्षक, स्वास्थ्य अधीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक के सेना चिकित्सा कोर सिविलियन (समूह 'ग' पैरा मेडिकल)

पर भर्ती नियम, 2005 में प्रकाशित पृष्ठ सं. 318, 319 और 320 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. बी/72116/आर आर/डीजीएमएस-3(बी)/ आर आर/08/डी.(नियुक्ति)/129]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में का.नि.आ. सं 120 तारीख 21 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi the 28th February, 2008

S. R. O. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Army Medical Corps Civilian (Group 'C' Para-Medical) posts of Senior Health Superintendent, Health Superintendent and Health Inspector Recruitment Rules, 2005 namely :—

1. (1) These rules may be called the Army Medical Corps Civilian (Group 'C' Para-Medical) posts of Senior Health Superintendent, Health Superintendent and Health Inspector amendment Recruitment Rules, 2008

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Army Medical Corps Civilian (Group 'C' Para-Medical) posts of Senior Health Superintendent, Health Superintendent and Health Inspector Recruitment Rules, 2005—"The Annexure III published in Page Nos. 322, 323, 324, 325 and 326 after the schedule omitted."

[F. No. B/72116/RR/DGAMS-3(B)/129/RR/08/D(Apptts)]

C.J. JOSE, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4 vide number S.R.O. 120, dated the 21st October, 2005.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 29.—केन्द्रीय सरकार का यह तम है कि श्री के. वी. नारायणा, एन. एस. ओ. के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विभागीय जांच के प्रयोजन हेतु श्री पी. सुब्बा राव, ए.एस.के. की पत्नी श्रीमती पी. सुब्बा लक्ष्मी से कोई दस्तावेज लेने के लिए/उन्हें साक्षी के रूप में बुलाया जाना आवश्यक है।

अतएव अब विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने हेतु श्री के.बी. नारायणा, एन.एस.ओ. के खिलाफ अनुशासनिक मामले के संबंध में कमांडर के.एस.एन. नायडू को

जांच प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। [संख्या सी-13016/1/सत.III/ 2001]

[संख्या सी-13016/1/सत.III/ 2001]

वी.पी. वर्गीज, उप सचिव

New Delhi, the 19th February, 2008

S.R.O. 29.—Whereas, the Central Government is of opinion that for the purpose of the departmental inquiry relating to Disciplinary proceedings against Shri KV Naryana, NSO, it is necessary to summon as witnesses/ call for any document from Smt. P. Subba Lakshmi, wife of Shri P. Subba Rao, ASK.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby authorizes Cdr. K.S.N. Naidu as the Inquiring Authority to exercise the power specified in Section 5 of the said Act in relation to disciplinary case against Shri K.V. Narayana, NSO. [No. C-1306/1/VIG III/2001]

[No. C-13016/1/VIG III/2001]

V. P. VARGHESE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 30.—विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री के.बी. नारायणा, एन.एस.ओ. (सेवा निवृत्त) जिनके के खिलाफ विभागीय जांच की जानी है, के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कमांडर के.एस.एन. नायडू को एतद्वारा प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करती है। [संख्या सी-13016/1/सत.III/ 2001]

[संख्या सी-13016/1/सत.III/ 2001]

वी. पी. वर्गीज, उप सचिव

New Delhi, the 19th February, 2008

S.R.O. 30.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 the Central Government hereby specifies Cdr KSN Naidu as an authority to exercise the power conferred on the Central Government by sub-section (1) of Section 4 of the said Act in respect of Shri K.V. Narayana, N.S.O. (Retd.) against whom a departmental inquiry may be held. [No. C-1316/1/VIG III/2001]

[No. C-13016/1/VIG III/2001]

V. P. VARGHESE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2008

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 1976 को, जहाँ तक उनका संबंध क्रम संख्या 1-पुस्काध्यक्ष श्रेणी-4, 2-सहायक पुस्काध्यक्ष, 3-स्थल अधीक्षक श्रेणी-1, 4-स्थल अधीक्षक श्रेणी-2, 5-स्थल अधीक्षक श्रेणी-3, 6-तनकीकी प्रयोगशाला सहायक, 7-प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1, 8-प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-2, 9-प्रयोगशाला परिचर, 10-टिनकार श्रेणी-1, 12-लोहार श्रेणी-1, 15-कलाकार श्रेणी-1, 16-कलकार श्रेणी-2, 17-सहायक कलाकर, 18-कलाकार या इश्तहार निर्माता या माडल बनाने वाला, 19-भंडारी श्रेणी-2, 20-संगीत पाण्डुलिपि लेखक, 21-भारतीय संगीत अनुदेशक श्रेणी-1, 22-संगीत उपकरण यांत्रिक, 26-भंडारी, 27-मुद्रक श्रेणी-4 (मुद्रणालय), 29-बालू मॉडल निर्माता, 30-माडल निर्माता, 31-कनिष्ठ प्रूप वाचक या मुद्रणालय पर्यवेक्षक, 32-कम्पोज़िटर, 34-उपकरण यांत्रिक, 35-बैण्ड मास्टर और 36-हिंदी अनुशिक्षक या अनुदेशक पर वर्णित पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोभ किया गया है, सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय में समूह 'ग' और समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, (क), 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्थल अधीक्षक श्रेणी-1	*01 (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक	रु.-4500- 125-7000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

(7)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
--	--	-------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(ii) उद्यान कृषि कार्य में एक वर्ष का अनुभव।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	--	---

(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में रु. 4000-100-6000 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. कर्नल प्रशासन, —अध्यक्ष सैनिक प्रशिक्षण स्थापन या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

784 GI/08-2

(12)	(13)
<p>(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p>	<p>3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी। —सदस्य</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्थल अधीक्षक श्रेणी-2	*01 (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक	रु.-4000-100-6000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड एक मुख्य विषय हो। से माध्यमिक या समतुल्य हो, जिसमें कृषि या उद्यान कृषि</p> <p>(ii) उद्यान कृषि कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
<p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन : केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(12)

(13)

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में रु. 3050-75-3950-80-4590 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और
(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन या प्राचार्य सैनिक स्कूल —अध्यक्ष
2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी —सदस्य
3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्थल अधीक्षक श्रेणी-3	*01 (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), (अनुसूचिवीय), गैर-औद्योगिक	रु.-3050-75-3950-80-4590	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य पर्यवेक्षण करने का एक वर्ष का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)	(14)
<p>प्रोन्नति : ऐसा प्रधान स्थल कर्मचारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हताएं रखते हों।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य, सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय -सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी 	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. तकनीकी प्रयोगशाला सहायक	*01 (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अनुसूचित विधायक गैर औद्योगिक।	4500-125-7000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायनशास्त्र में डिग्री। वांछनीय : वैज्ञानिक उपकरणों के नामों और उनके प्रयोग से सुपरिचित होना चाहिए।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

(13)

(14)

प्रोन्नति : ऐसा प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आंधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हताएं रखते हों।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति
(प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष
या प्राचार्य, सैनिक स्कूल
2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य
अधिकारी
3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय -सदस्य
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी
या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1	02 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक।	4000-6000-100 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

784 GI/08-3

(12)	(13)	(14)
<p>प्रोन्नति : ऐसा प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-2, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हताएं रखते हों ।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन —अध्यक्ष या प्राचार्य, सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक —सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय —सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी 	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-2	20 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “ग” (अराजपत्रित), अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक ।	3200-85 4900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।
(8)	(9)	(10)	(11)			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, जिसमें भौतिकी या रसायनशास्त्र प्रमुख विषय के रूप में हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।			

(12)	(13)	(14)
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हताएं रखते हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य, सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय -सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. प्रयोगशाला परिचर	14 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	2650-65 3300-70-4000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या स्कूल से आठवां स्तर उत्तीर्ण, जिसमें विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में हो	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा पुस्तकालय या शैल्फ परिचर, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल	लागू नहीं होता

(12)	(13)
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेसन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदुश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों	2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी —सदस्य 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष रोजपत्रित अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. टिनकार या ताम्रकार	05 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-3050-75 3950-80-4590	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय असणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से टिनकार या ताम्रकारी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। या टिनकार या ताम्रकार के कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेसन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)	(14)
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय -सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. लोहार	06 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-3050-75 3950-80-4590	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से विनिर्दिष्ट व्यवसाय में प्रमाणपत्र। या लोहार के रूप में दो वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)	(14)
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल	लागू नहीं होता

784 GI/08-4

(13)

2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी	—सदस्य
3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. कलाकार श्रेणी-1	04 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-4500-125 7000	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; और (ii) लक्षित कला में डिप्लोमा।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा कलाकार, श्रेणी-2, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी	लागू नहीं होता।

(12)

(13)

कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।

या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. कलाकार श्रेणी-2	03 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अनुसूचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-4000-100 6000	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त कला संस्थान से ड्राईंग और चित्रकला में डिप्लोमा, या आकृति, रेखाचित्र और आरेख बनाने में तीन वर्ष का अनुभव और ज्ञान।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा सहायक कलाकार या बालू माडल निर्माता, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल	लागू नहीं होता।

(12)	(13)	(14)				
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी —सदस्य 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी —सदस्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. सहायक कलाकार	02 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय, गैर औद्योगिक	रु.-3050-75-3950-80 4590	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
(8)	(9)	(10)	(11)			
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) व्यवसाय में निपुणता प्रमाणपत्र	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।			
(12)	(13)	(14)				
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।				

(12)	(13)	(14)
	1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन —अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल	
	2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक —सदस्य अधिकारी	
	3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय —सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. कलाकार या माडल निर्माता या इशतहार निर्माता	08 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित), अनुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-2650-65-3300-70-4000	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ड्राइंग में प्रमाणपत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन —अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक —सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय —सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. भंडारी श्रेणी-2	06 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-3050-75- 3950-80 4590	चयन	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणि- पुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
(8)	(9)	(10)	(11)			
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) भंडार सामग्री संभालने का तीन वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।			
(12)	(13)	(14)				
प्रोन्नित : ऐसा समूह 'घ' कर्मचारी जिसे भंडार सामग्री के रख रखाव का पांच वर्ष का अनुभव है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय -सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. संगीत पांडुलिपि लेखक	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-4000-100-6000	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक : मैट्रिकुलेशन या भारतीय संगीत में उसका समतुल्य पाठ्यक्रम वांछनीय : सुवाच्य रूप में संगीत स्वरलिपि लिखने में समर्थ और भारतीय संगीत का ज्ञान होना चाहिए।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	आमेसन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
आमेसन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी -सदस्य 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. भारतीय संगीत अनुदेशक श्रेणी-1	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-5000-150-8000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
(8)	(9)	(10)	(11)			
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य और (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में डिग्री। वांछनीय : (i) भारतीय संगीत की रचना का ज्ञान होना चाहिए। (ii) भारतीय स्वरलिपि से पश्चिमी स्वरलिपि में और पश्चिमी स्वरलिपि से भारतीय स्वरलिपि में लिप्यंतर करने में समर्थ होना चाहिए। (iii) वाद्यवृद्धकरण का ज्ञान।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।			
(12)	(13)	(14)				
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सवृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. संगीत उपकरण यांत्रिक	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक	रु.-3050-75- 3950-80- 4590	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणि- पुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; (ii) सैनिक बैंड के वात यंत्रों के सभी प्रकार की बड़ी और छोटी मरम्मत करने में समर्थ होना चाहिए। (iii) प्यानों की मरम्मत के लिए सूक्ष्म काष्ठ-कला के कार्य में तीन वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेसन द्वारा, जिसके न सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
आमेसन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सभिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन —अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक —सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय —सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. भंडारी	01 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक	रु.-4000-100- 6000	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणि- पुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) भंडार सामग्री संचालने का पांच वर्ष का अनुभव	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)	(13)	(14)
<p>प्रोन्नति : ऐसा भंडारी श्रेणी-2 जिसे उस श्रेणी में पांच वर्ष का अनुभव है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक है या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों ।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन —अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक —सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय —सदस्य सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी 	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. मुद्रक श्रेणी-4 (मुद्रणालय)	02*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-3050-75-3950-80-4590	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) मुद्रण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं अर्हता : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न सकने पर आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
<p>प्रोन्नति : ऐसा सहायक मुद्रक श्रेणी-4 या श्रेणी-5, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हताएँ रखते हों।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी -सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. बालू माडल निर्माता	14*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-3050-75-3950-80-4590	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
(8)	(9)	(10)	(11)			
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) सामान्य ड्राईंग कला में डिप्लोमा; या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से नवशानवीसी सिविल में प्रमाणपत्र। या संबंध व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।			
(12)	(13)	(14)				
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी -सदस्य 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. माडल निर्माता	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु.-3050-75-3950-80-4590	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) सामान्य ड्राईंग कला में डिप्लोमा; या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीसी सिविल में प्रमाणपत्र। या संबंध व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेदन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा समूह 'घ' कर्मचारी, जिसे माडल निर्माता या इशतहार निर्माता या कलाकार की सहायता करने का पांच वर्ष का अनुभव है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी	लागू नहीं होता।

(12)

लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हताएँ रखते हों।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22। प्रूप वाचक या मुद्रालय पर्यवेक्षक	02 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	रु. 4000-100-6000	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
(8)	(9)	(10)	(11)			
(i) माध्यमिक	आयु : नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।			
(ii) संबंध व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव।	अर्हता : हां					

(12)

(13)

(14)

प्रोन्नित : ऐसा कम्पोजिटर, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-
1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल
2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य अधिकारी
3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुपाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी

लागू नहीं होता

(12)

सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

आमेसन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. कम्पोजिटर	06 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसन्धिवीय गैर औद्योगिक	रु. 3050-75-3950-80-4590	चयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) संबंध व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर आमेसन द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नित : ऐसा मुद्रणालय वितरक या जिल्दसाज, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिसे कम्पोजिंग का ज्ञान है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन -अध्यक्ष या प्राचार्य सैनिक स्कूल 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक -सदस्य	लागू नहीं होता

(12)		(13)				
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		अधिकारी 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी			—सदस्य	
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. उपकरण यांत्रिक	01 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक,	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
(8)	(9)	(10)	(11)			
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) दूरबीन, दिक-सूचक यंत्रों, घड़ियों और प्रकाशीय उपकरणों की मरम्मत करने में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।			
(12)	(13)	(14)				
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता				

(12)

(13)

1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन —अध्यक्ष
या प्राचार्य, सैनिक स्कूल
2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक —सदस्य
अधिकारी
3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी
या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. बैंड मास्टर	01 *(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	4500-125- 7000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणि- पुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) संगीत में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)	(13)	(14)
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों ।	समूह 'ग' विभागीय प्रगति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- <ol style="list-style-type: none"> 1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन या प्राचार्य, सैनिक स्कूल —अध्यक्ष 2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी —सदस्य 3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी —सदस्य 	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. हिंदी अनुदेशक	06*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित), अननुसचिवीय गैर औद्योगिक	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
	(8)	(9)	(10)	(11)		
अनिवार्य :		लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।		
(i) एक अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।						
वांछनीय :						
(i) अध्यापन में दो वर्ष का अनुभव।						
(ii) किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।						
	(12)	(13)	(14)			
आमेलन : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्ति, जो स्तंभ 8 में दर्शित अर्हतायें रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता				
	1. कर्नल प्रशासन, सैनिक प्रशिक्षण स्थापन या प्राचार्य, सैनिक स्कूल -अध्यक्ष					
	2. स्थापन के प्रशासन का भारसाधक अधिकारी -सदस्य					
	3. नजदीकी केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी -सदस्य					

New Delhi, the 22nd February, 2008

S.R.O. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Training Directorate Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1976 insofar as they relate to the posts mentioned at serial numbers 1-Librarian Grade-IV, 2-Assistant Librarian, 3 Ground Superintendent Grade-I, 4-Ground Superintendent Grade-II, 5-Ground Superintendent Grade-III, 6-Technical Laboratory Assistant, 7-Laboratory Assistant Grade-I, 8-Laboratory Assistant Grade-II, 9-Laboratory Attendant, 10-Tinsmith Grade-I, 12 Blacksmith Grade-I, 15-Artist Grade-I, 16-Artist Grade-II, 17-Assistant Artist, 18-Artist or Poster Maker or Modeller, 19-Store Keeper Grade-II, 20-Music Manuscript Writer, 21-Indian Music Instructor Grade-I, 22-Music Instrument Mechanic, 26-Storekeeper, 27-Printer Grade-IV (Printing Press), 29-Sand Model Maker, 30-Model Maker, 31-Junior Proof Reader or Supervisor Printing Press, 32-Compositor, 34-Instrument Mechanic, 35-Band Master and 36-Hindi Tutor or Instructor except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Military Training Directorate Group 'C' and 'D' Posts Non-Gazetted, Non-Ministerial, namely:—

1. (1) Short title and commencement - (1) These rules may be called Military Training Directorate, Group 'C' and 'D' Posts, Recruitment Rules (A), 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of Pay- The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification - No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under central civil services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) Ground Superintendent Grade-I	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) Ground Superindendent Grade-II	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Intermediate or equivalent with Agriculture or Horticulture as one of the principal subjects from a recognized University or Board	Not applicable	Two years	By deputation or absorption failing which by direct recruitment
(ii) Two years experience of Horticultural work			

(12)	(13)	(14)
Deputation or Absorption : Officers of the Central Government :—	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—	Not applicable
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	(1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School	1—Chairman
(ii) having eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent in the parent cadre or department and;	(2) Officer in charge Administration of the Establishment	—Member
(b) Possessing the qualification and experience as prescribed and indicated in column 8.	(3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization	—Member
Note :— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(3) Ground Superintendent Grade-III	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date of prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)
	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i) Matriculation or equivalent.		No	Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment		
(ii) One year experience of supervision of the work of Groundsman						
	(12)	(13)	(14)			
Promotion : Head Groundsman with five years service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of whichever is less, such qualifying or eligibility service, or two years, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School (2) Officer in charge Administration of the Establishment (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization			Not applicable —Chairman —Member —Member	
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4) Technical Laboratory Assistant	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4500-125-7000	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of

(7)

applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Degree from a recognized university with Physics and Chemistry Desirable: Conversant with nomenclature of scientific appliances and their use	Age—No Qualification—Yes	Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Promotion : Laboratory Assistant Grade-I with three years service in the grade Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(5) Laboratory Assistant Grade-I	02* (2008) *Subject dependent on work load	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

				(7)						
				Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep)						
				(8)	(9)	(10)	(11)			
				Degree in Science from a Recognized University or equivalent	Age—No Qualification—Yes	Two years	By promotion failing which by direct absorption and failing both by direct recruitment.			
				(12)	(13)		(14)			
				Promotion : Laboratory Assistant Grade-II with three years service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being consi- dered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Absorption : Persons working in similar or equiva- lent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member		Not applicable.			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(6) Laboratory Assistant Grade-II	20* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3200-85- 4900	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years relax- able for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation or equivalent from a recognized University or Board with Physics and Chemistry as principal subjects.	Not applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment.
(12)	(13)	(14)	
Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member	Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(7) Laboratory Attendant	14* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
8th standard pass with Science as a compulsory subject from a recognized School or Board.	Age—No Qualification—Yes	Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment
(12)	(13)	(14)	
Promotion : Library or Shelf Attendant with three years service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal,	Not applicable.	

784 GI/08-10

(12)	(13)
considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8) Tinsmith or Coppersmith	05* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation or equivalent; and Diploma or Certificate from Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training in the trade of Tinsmithy or Copper smithy Or Two years experience in the job of tin smithy or Copper smithy	Age—No Qualification—Yes	Two years	By deputation or absorption failing which by direct recruitment

(12)	(13)	(14)
Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman	Not applicable.

(13)

(2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member
(3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(9) Blacksmith	06* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent; (ii) Certificate from Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training in the specified trade OR Two years experience as a Blacksmith	Not applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment

(12)	(13)	(14)
Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(10) Artist Grade-I	04* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 4500-125-7000	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)
(8)		(9)		(10)	(11)	
(i) Matriculation or equivalent; and (ii) Diploma in fine Arts		Age—No Qualification—Yes		Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment.	
(12)		(13)		(14)		
Promotion : Artist Grade-II with five years service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.		Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member		Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(11) Artist Grade-II	03* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt o applications from candidates in

(7)

India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent; (ii) Diploma in Drawing and Painting from a recognized institution of Arts OR Three years experience and knowledge of drawing figures, sketches and diagrams.	Age—No Qualification—Yes	Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
<p>Promotion : Assistant Artist or Sand Model Maker with five years service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of two requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion or confirmation) consisting of:—</p> <p>(1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman</p> <p>(2) Officer-in-charge Administration of Establishment—Member</p> <p>(3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(12) Assistant Artist	02* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable	<p>Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government.</p> <p>Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,</p>

(7)						
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)						
(8)		(9)	(10)		(11)	
(i) Matriculation or equivalent;		Not applicable	Two years		By absorption failing which by direct recruitment.	
(ii) Certificate of proficiency in the trade						
(12)		(13)			(14)	
Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.		Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(13) Artist or Model Maker (2008) or Poster Maker	08* *Subject to variation dependent on work load.	General Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)
(8)		(9)	(10)		(11)	
(i) Matriculation or equivalent; and		Not applicable	Two years		By absorption or failing which by direct recruitment.	
(ii) Certificate in Drawing from a recognized Institution						

(12)	(13)	(14)
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School— Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment— Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization— Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(14) Store Keeper Grade-II	06* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable.	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent; (ii) Three years experience in handling of stores.	Age-No Qualification-Yes	Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Promotion : Group 'D' employee possessing five years experience of handling of stores. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School— Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment— Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization— Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(15) Music Manuscript Writer	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable determining	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
	(8)	(9)		(10)		(11)
Essential: Music.	Matriculation or its equivalent course in Indian	Not applicable		Two years		By absorption failing which by direct recruitment.
Desirable: Indian Music.	Ability to write musical score legibly and knowledge of Indian Music.					
	(12)			(13)		(14)
Absorption: Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.				Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member		Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(16) Indian Music Instructor Grade-I	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date

(7)

prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Degree or equivalent from a recognized University; and (ii) Degree in Music from a recognised University. Desirable : (i) Knowledge of composition of Indian music. (ii) Ability to transcript from Indian to Western Notations and vice versa. (iii) Knowledge of Orchestration.	Not applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School— Chairman (2) Officer in charge, Administration of the Establishment— Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization— Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(17) Music Instrument Mechanic	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

(7)						
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)						
(8)	(9)	(10)	(11)			
(i) Matriculation or equivalent. (ii) Ability to carry out all types of major and minor repairs on the Wind Instrument of Military Band. (iii) Three years' experience of delicate carpentary work for the repairs of Pianos.	Not applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment.			
(12)	(13)	(14)				
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School— Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment— Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization— Member	Not applicable.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(18) Store Keeper 01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial.	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent;	Age—No	Two years	By promotion failing which
(ii) Five years experience in ↓ handling of stores	Qualification—Yes		absorption and failing both by direct recruitment.
(12)	(13)	(14)	
Promotion : Storekeeper Grade-II with five years service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:—		Not applicable
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer-in-charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member		
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(19) Printer Grade-IV (Printing Press)	02* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable upto 35	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent; and	Age—No	Two years	By promotion failing which
(ii) Three years experience in Printing Press Job.	Qualification—Yes		absorption and failing both by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Promotion: Assistant Printer Grade-IV or V with three years service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their period for probation/promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer-in-charge Administration of Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(20) Sand Model Maker	14* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs 3050-75-3' 0-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent; and	Not applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment
(ii) Diploma in General Drawing Arts; or Certificate in Draughtsmanship civil from Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training Or Three years experience in the relevant trade.			

(12)	(13)	(14)
Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer-in-charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(21) Model Maker	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent; (ii) Diploma in General Drawing Arts; or Certificate in Draughtsmanship civil from Industrial Training Institute or National Council of Vocational Training Or Three years experience in the relevant trade.	Not applicable	Two years	By promotion failing which by absorption and failing both by direct recruitment

(12)	(13)	(14)
Promotion : Group 'D' employees possessing five years experience of helping Model Maker or Poster Maker or Artist.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:—	Not applicable

(12)	(13)
<p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.</p>	<p>(1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman</p> <p>(2) Officer-in-charge Administration of the Establishment—Member</p> <p>(3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(22) Proof Reader 02* or Supervisor (2008) Printing Press *Subject	General Central Services to variation Group 'C' dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	<p>Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government.</p> <p>Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Intermediate	Age : No	Two years	By promotion failing which
(ii) Two years experience in the relevant trade	Qualification : Yes		absorption and failing both by direct recruitment

(12)	(13)	(14)
<p>Promotion : Compositors with five years service in the trade</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:—</p> <p>(1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman</p> <p>(2) Officer-in-charge Administration of</p>	Not applicable

(12)	(13)
qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government organization—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(23) Compositor	06* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable.	Between 18 to 25 years relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep)

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent (ii) Two years experience in the relevant trade	No	Two years	By promotion failing which absorption and failing both by direct recruitment

(12)	(13)	(14)
Promotion : Distributor Printing Press or Book Binder with five years service in the grade with knowledge of composing Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Defence Service possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration, Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer-in-charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(24) Instrument Mechanic	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
	(8)	(9)		(10)		(11)
(i) Matriculation or equivalent; (ii) Two years experience in carrying out repairs to binoculars, compasses, clocks and optical instrument.		Not applicable		Two years		By absorption failing which by direct recruitment
	(12)			(13)		(14)
Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence services possessing the qualifications as indicated in Column 8.				Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member		Not applicable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(25) Band Master	01* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications from candidates in

(7)

India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent and; (ii) Certificate or Diploma in Music	Not applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment.

(12)	(13)	(14)
Absorption : Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence services possessing the qualifications as indicated in Column 8.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(26) Hindi Instructor	06* (2008) *Subject dependent on work load.	General Central Services (Non-Gazetted) Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. Relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government. Note. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep)

	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential :		Not applicable	Two years	By absorption and failing which by direct recruitment.
(i) Degree from a recognised University with Hindi as one of the compulsory subject.				
Desirable :				
(i) Two years teaching experience				
(ii) Knowledge of any other modern higher Language.				
	(12)	(13)	(14)	
Absorption :		Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—		Not applicable
Persons working in similar equivalent or higher grade in lower formations of Defence services possessing the qualifications as indicated in Column 8.		(1) Colonel Administration Military Training Establishment or Principal, Military School—Chairman (2) Officer in charge Administration of the Establishment—Member (3) Section Officer of Central Secretariat Service or equivalent Gazetted Officer from nearby Central Government Organization—Member		

[F. No. 45984/RR/CD/140(1976)/GS/MT-7/43/D(A)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.